

व्याकरणिक चिहनों का प्रयोग

- 1. कॉमा :** पाठ्य सामग्री में कॉमा का प्रयोग करते समय पहले कोई स्पेस नहीं दिया जाता, किंतु बाद में एक स्पेस दिया जाता है। अंकों में कॉमा का प्रयोग करते समय आगे-पीछे कोई स्पेस नहीं दिया जाता है। इनस्क्रिप्ट कुँजीपटल पर यह सबसे नीचे की पंक्ति में दाईं ओर की तीसरी कुँजी पर उपलब्ध है। टाइपराइटर कुँजीपटल पर यह चिह्न नीचे से तीसरी पंक्ति पर दाईं ओर की पहली कुँजी पर है।
- 2. विराम :** पूर्ण विराम से पहले कोई स्पेस नहीं दिया जाता, किंतु इसके बाद एक स्पेस देकर ही अगला वर्ण टाइप करें। इनस्क्रिप्ट कुँजीपटल पर यह चिह्न सबसे नीचे की पंक्ति पर दाईं ओर की दूसरी कुँजी पर है, जहाँ इसे शिफ्ट दबाकर प्रयोग किया जाता है। टाइपराइटर कुँजीपटल पर यह सबसे ऊपर की पंक्ति पर 1 की संख्या वाली कुँजी के शिफ्ट पर है।
- 3. प्रश्नवाचक :** किसी भी हिंदी कुँजीपटल पर यह चिह्न उपलब्ध नहीं है। अतः इसका प्रयोग अंग्रेजी कुँजीपटल से किया जाएगा। अंग्रेजी कुँजीपटल पर यह सबसे नीचे की पंक्ति में दाएँ हाथ की पहली कुँजी पर है। इसे शिफ्ट दबाकर प्रयोग किया जाता है। प्रश्नवाचक चिह्न से पहले कोई स्पेस नहीं दिया जाता, किंतु इसके बाद एक स्पेस देकर ही अगला वर्ण टाइप करें।
- 4. विस्मयादिबोधक :** यह चिह्न भी अंग्रेजी कुँजीपटल से प्रयोग किया जाएगा। इस कुँजीपटल पर यह सबसे ऊपर की पंक्ति पर बाएँ हाथ की दूसरी कुँजी पर उपलब्ध है। विस्मयादिबोधक चिह्न से पहले कोई स्पेस नहीं दिया जाता, किंतु इसके बाद एक स्पेस देकर ही अगला वर्ण टाइप करें।
- 5. कॉलन/सेमी कॉलन :** इन चिह्न का प्रयोग भी अंग्रेजी कुँजीपटल से किया जाएगा, जो होम-कीज़ पर दाएँ हाथ की दूसरी कुँजी पर है। कॉलन को शिफ्ट दबाकर टाइप किया जाएगा।
- 6. हाइफन :** इसे योजक चिह्न भी कहा जाता है। इनस्क्रिप्ट कुँजीपटल पर यह सबसे ऊपर की पंक्ति पर दाईं ओर की तीसरी कुँजी पर है, जबकि टाइपराइटर कुँजीपटल पर यह 5 की संख्या वाली कुँजी पर है और इसे शिफ्ट दबाकर टाइप किया जाता है। योजक चिह्न से पहले और बाद में कोई स्पेस नहीं दिया जाता है।
- 7. विसर्ग :** इनस्क्रिप्ट कुँजीपटल पर इसे हाइफन वाली कुँजी पर शिफ्ट दबाकर बनाया जा सकता है। टाइपराइटर कुँजीपटल पर यह 3 की संख्या वाली कुँजी पर उपलब्ध है और शिफ्ट दबाकर इसे बनाया जा सकता है।

8. डैश : यह हाइफन द्वारा ही टाइप किया जाता है, किंतु इसके पहले और बाद में एक-एक स्पेस दिया जाता है। बड़े आकार वाले डैश का प्रयोग Num Lock को ऑन रखकर Ctrl+Alt कुँजी के साथ Hyphen (-) वाली कुँजी को दबाकर किया जा सकता है।

9. ऑब्लिक : टाइपराइटर कुँजीपटल पर यह 2 की संख्या वाली कुँजी पर है और इसे शिफ्ट दबाकर प्रयोग किया जाता है। अन्य कुँजीपटलों पर यह उपलब्ध नहीं है और इसे अंग्रेजी कुँजीपटल से बनाया जा सकता है। अंग्रेजी कुँजीपटल पर यह चिह्न सबसे नीचे की पंक्ति पर दाईं ओर की पहली कुँजी पर उपलब्ध है।

10. ब्रैकेट : इनस्क्रिप्ट कुँजीपटल पर यह 9 और 0 वाली कुँजियों पर उपलब्ध है। टाइपराइटर कुँजीपटल पर इसका प्रयोग अंग्रेजी कुँजीपटल से किया जाता है। अंग्रेजी कुँजीपटल पर भी यह उपर्युक्त कुँजियों पर ही उपलब्ध है।

11. इनवर्टेड कॉमा : टाइपराइटर कुँजीपटल पर यह चिह्न 6 और 7 वाली कुँजियों पर उपलब्ध है। इनस्क्रिप्ट कुँजीपटल में इसका प्रयोग करने के लिए अंग्रेजी कुँजीपटल की सहायता ली जाती है, जहाँ यह नीचे से दूसरी पंक्ति पर दाईं ओर की पहली कुँजी पर उपलब्ध है। बिना शिफ्ट दबाए इस कुँजी को प्रयोग करने पर इकहरी और शिफ्ट दबाकर दोहरी इनवर्टेड कॉमा लगाई जा सकती हैं।

12. दशमलव : दशमलव चिह्न के लिए बिंदु का प्रयोग किया जाता है जैसे 89.4। शब्दों के संक्षिप्तीकरण के लिए भी इसी बिंदु का प्रयोग किया जाता है, जैसे एम.बी.बी.एस. आदि। टाइपराइटर कुँजीपटल पर यह सबसे ऊपर की पंक्ति में दाईं ओर की तीसरी कुँजी पर है, जहाँ शिफ्ट दबाकर इसे प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा यह चिह्न बैकस्पेस कुँजी के नीचे भी उपलब्ध है। इनस्क्रिप्ट कुँजीपटल पर यह बिंदु सबसे नीचे की पंक्ति में दाईं ओर की दूसरी कुँजी पर है। संक्षिप्तीकरण अथवा एब्रीविएशन टाइप करते समय अक्षरों के बीच स्पेस नहीं दिया जाता है, लेकिन सरनेम टाइप करने से पहले एक स्पेस दिया जाता है, जैसे— एम.के. शर्मा।